

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL
CLASS- 8
SUBJECT- 2nd LANGUAGE HINDI
CHAPTER- गांव और शहर

ANSWER SHEET

- 1) शब्दों के अर्थ लिखें :-
 - a) आंतरिक-- अंदरूनी
 - b) पलायन-- भागना
 - c) आवासीय-- निवास स्थान संबंधी
 - d) कृतज्ञ-- किए गए उपकार को मानने वाला
 - e) जिज्ञासा-- जानने की इच्छा

- 2) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं :-
 - a) व्यग्र--- बच्चे खेल के मैदान में व्यग्र हो उठते हैं ।
 - b) उन्नतशील-- भारत एक उन्नतशील देश है ।
 - c) व्यवस्था--- देश की व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है ।
 - d) विवश---- महामारी के कारण सभी लोग विवश हो गए हैं ।

- 3) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :-
 - a) गोपी अभिषेक के दादाजी का नौकर था । इसलिए दोनों में नौकर और मालिक का संबंध था ।
 - b) सरकारी कृषि विशेषज्ञ किसानों को कृषि के वैज्ञानिक ढंग से परिचित करवाता है ।
 - c) अभिषेक गांव की उन्नति और वहां की जीवन शैली में आए परिवर्तन को देखकर खुश हुआ ।
 - d) गोपी का घनिष्ठ मित्र रामधन था । गोपी को गांव का जीवन पसंद था और रामधन को शहरी जीवन पसंद था ।
 - e) बढ़ती जनसंख्या से महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, अनगिनत बीमारियां और आवासीय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ।
 - f) गांव भारत की आत्मा है और शहर शरीर की भांति है ।
 - g) गांव ने हमारे देश को एक से बढ़कर एक कवि, कलाकार, ले, दे, समाज सुधारक तथा राजनेता दिए हैं ।
 - h) देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा पुलिस और सेना करती है ।
 - i) देश की प्रगति गांव की परिश्रमशीलता तथा शहरों की कार्यकुशलता और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि पर निर्भर करती है ।
 - j) विपरीत शब्द बताइए :-
कृतज्ञ-- कृतघ्न
पिछड़ा-- उन्नत

- 4) गांव और शहर के एक दूसरे के पूरक हैं । शहरों के लिए कच्चे माल की पूर्ति गांव द्वारा होती

है। शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण में गांवों के मजदूरों का हाथ होता है।
दूसरी तरफ खेती के नए नए तरीके शहरों से आए कृषि विशेषज्ञ ही सिखाते हैं; साथ ही
साथ उन्नति के अन्य मार्गों की शुरुआत भी शहरों द्वारा ही होती है।
अतः हम कह सकते हैं कि गांव भारत की आत्मा तथा शहर भारत के शरीर की भांति है।
इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं।
